

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2024 — फाल्गुन 30, शक 1945

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-17/2024/वा.क.(आब.)/पांच(36). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, प्रदेश में “अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन” हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) पर प्रति नग की निम्नानुसार दर से “अधोसंरचना विकास शुल्क” अधिरोपित करता है।

क्र.	मदिरा का प्रकार	मदिरा की धारण क्षमता	“अधोसंरचना विकास शुल्क” (रूपये में)
1	देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन)	बोतल (750 एम.एल.)	80
		अर्द्धा (375 एम.एल.)	40
		पाव (180 एम.एल.)	20
2	विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैग्नेम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	120
		767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	80
		383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	40
		191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	20
3	विदेशी मदिरा (माल्ट)	767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	20
		383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी।	10

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 3-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच (67), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02-05-2020, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच (25), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23-03-2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2020/वा.क. (आब.)/पांच (57), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18-07-2022 को दिनांक 01-04-2024 से निरसित किया जाता है।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2024 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.